



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019
Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941–August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7337.-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Kanore has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Kanore. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका कानोड़ जिला उदयपुर(राज.)

प्रफोमा-क

| | |
|--------------------|---|
| वार्ड संख्या 1. | बसन्ती लाल चौधरी की दुकान से प्रारम्भ होकर दिशा उत्तर में चलकर बायी ओर के मकानो, दुकानो को शामिल करते हुये श्री हिरा लाल धोबी के मकान तक वहा से दिशा पश्चिम में चलकर बायी ओर के भाग को शामिल करते हुये दको की गली के दाये-बाये भाग को शामिल करते हुये श्री डालचन्द मोरवनिया के मकान तक, खाकल देव जी का देवरा एवं हमेर लाल हरकावत, नरेन्द्र सिंह के मकानो को शामिल करते हुये बस स्टेण्ड चुंगी नाका (पुलिस चौकी) तक यहा से पारस धींग की दुकान तक वहा से दक्षिण में चलकर सूर्यप्रकाश व्यास की दुकान तक यहा से पूर्व में चलकर पिपली वाले बावजी पिन्दु तेली प्रथ्वीराज सुथार तक वहा से उत्तर में चलकर कॉर्नर तक वहा से रोड क्रोस कर बंशी सिंह के मकान तक वहा से रोड क्रोस कर रामचन्द्र लक्ष्कार के दुकान सवाई लाल जी बालु जी सुथार के मकान को लेते हुये मोहन लाल जी छीपा मनोर जी पटवारी विनोज जी चौबिसा के मकान तक वहा से उत्तर में चल कर श्री मदन सिंह जी गहलोत के मकान को लेते हुये महावीर जी दक के मकान तक वहा से रोड क्रोस कर बसन्ती लाल चौधरी के मकान का बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 2. | श्री पुनमचन्द्र धींग के मकान से प्रारम्भ होकर दिशा उत्तर में चलकर बायी ओर को शामिल करते हुये कोर्ट चौराया भाब्बीर हुसैन बोहरा की दुकान तक वहा से गली में दक्षिण दिशा में चल कर बायी ओर के भाग को लेते हुये श्री फिरोज खॉ के मकान को लेते हुये श्री बाबू लाल धींग के मकान तक वहा से रास्ता क्रोस कर श्री मोहन लाल जारोली के मकान से उत्तर में चलकर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया वहा से रमेश बाबेल की दुकान तक, वहा से वेदो की गली व दाये-बाये भाग को शामिल करते हुये सूरजमल मारु व अन्य मकान को शामिल करते हुये श्री पृथ्वीराज तम्बोली के मकान को शामिल करते हुये स्व.चुन्नी लाल खटीक के मकान तक वहा से उत्तर में चलकर कोर्ट चौराया तक वहा से पश्चिम में चलकर दिनेश जैन व भाम्भू काटा व स्व. राम लाल तेली |

| | |
|--------------------|--|
| | के मकान को लेते हुए बस स्टेण्ड के पूर्व भाग को लेते हुए ऋशभ जैन की दुकान तक, वहा से पूर्व में चलकर बायी ओर के भाग को लेते हुए हिरा लाल तम्बोली के मकान दुकान तक , वहा से पुनः पूनम चन्द धींग के मकान तक । |
| वार्ड संख्या 3. | बस स्टेण्ड /तुराब अलि की दुकान से प्रारम्भ होकर मिठा लाल चौधरी की दुकानो को लेते हुए स्व. भैरु लाल वेद व अम्बा लाल ढोली के मकान तक, वहा से पूर्व में चलकर कोर्ट, जेल, स्वास्थ्य केंद्र को लेते हुए रोड, रोड के बायी ओर का भाग कोलोनी गलियों को शामिल करते हुए शमशान (चौधरी,खटीक) तक वहा से दिशा पश्चिम मे चल कर खाकियो के साथ को भामिल करते हुये रामदेव चौराहा तक वहा से दिशा पुर्व में चलकर गणेश सिंह के मकान तक वहा से मकानो व गलियों दुकानों को लेते हुये हरिजन बस्ती को भामिल करते हुये तुलसी अमृत गेट श्री भगवती लाल मेनारीया के दुकान तक वहा से दिशा उत्तर में चल कर तुराब अली के दुकान के बिच का क्षेत्र । |
| वार्ड संख्या 4. | बस स्टेण्ड सार्वजनिक धर्मशाला से तुलसी द्वार से प्रारम्भ होकर दिशा पश्चिम में चल कर पुनमचन्द खटीक के मकान को लेते हुये गलीयो एव दुकानो को लेते हुये तुलसी अमृत विद्यालय को लेते हुये निमडीया बावजी तक वहा से उकार सि हके मकान को लेते हुये नगरपालिका राजस्व सीमा के सहारे सहारे चल कर करुमडीया को भामिल करते हुये नन्दु होटल वाले के मकान को लेते हुये तुलसी अमृत के दक्षिण की ओर के भाग को लेते हुये मनोज कोठारी टावर वाली गली के बाये भाग प्रेम िंकर जी के मकान को लेते हुये टीवी एस भोरूम तक वहा से दिशा उत्तर में चल कर मदन लाल जी दक के मकान को लेते हुये मनोज कोठारी के व सार्वजनिक धर्मशाला के बिच का क्षेत्र । |
| वार्ड संख्या 5. | श्री औम जी व्यास के मकान से प्रारम्भ होकर दिशा पश्चिम मे चल कर टावर वाली गली के बाये भाग को शामिल करते हुये तुलसी अमृत विद्यालय के पास वाली गली के बायी ओर के भाग को शामिल करते हुये भट्टा वाले घरों को शामिल करते हुये तलावा के समस्त भाग को शामिल करते हुये कण्डेला तालाब को लेते हुये वासुदेव मन्दावत के मकान तक वहा से आकोला रोड क्रोस कर राम सिंह के मकान को लेते हुये रमेश चन्द्र पण्डिया के मकान तक वहा से औम जी व्यास के मकान के बिच का क्षेत्र । |
| वार्ड संख्या 6. | ब्रम्हपुरी आकोला चौराहा नृसिंह वाटिका से प्रारम्भ होकर दिशा दक्षिण में चल कर रास्ते रास्ते पुर्वी भाग कृर्शि भुमि को भामिल करते हुये आगे मोहन दास वैष्णव को शामिल करते हुये बुटी वली तक चौराहा तक वहा से पुर्व में चलकर गोपालपुरा एनीकट के घरों को शामिल करते हुये जलेबी रोड तक वहा से उत्तर में चल कर गोपालपुरा आडा वेला के सभी मकान फलों को शामिल करते हुये नन्द लाल चुन्नी लाल मीणा वार्ड नं. 08 के मकान को लेते हुये लवारसीया वेरा वहा से उत्तर में चल कर लवारसीया शमशान को शामिल करते हुये भांकर लौहार की दुकान तक वहा से पश्चिम में चल कर गोविन्द काठा के मकान को लेते हुये खाकल देव मन्दिर वाली गली को भामिल करते हुये शान्ति लाल नन्दावत के मकान को लेते हुये जगन्नाथ रेगर के स्टाक को शामिल करते हुये पानी की नई टंकी के रोड को लेते हुये लक्ष्मी कान्त की डेयरी के नये मकान को शामिल करते हुये पुनः आकोला रोड चौराहे के बिच का क्षेत्र । |
| वार्ड संख्या 7. | अन्दर वाव दरवाजे से श्री देवी लाल नाई की दुकान से प्रारम्भ होकर दिशा पश्चिम में चलकर राजपूत समाज के नोहरे को भामिल कर हुए दिशा दक्षिण में चलकर दिनेश जैन, |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>ललित दक, आगे नरेश मोरवनिया तक, वहा से मज्जिद के पिछे चन्द्र भांखर व्यास तक वहा से आगे चलकर पतली गली में दिशा पूर्व में चलकर रणजीत सिंह ,राम सिंह जी के मकान को लेते हुए गली के कॉनर तक वहा से दिशा उत्तर में चलकर विश्वनाथ व्यास के मकान को लेते हुए मोती लाल गांछा के मकान तक वहा से गलीयों मौहल्ले को लेते हुए गिरजा लाल व्यास के मकान को लेते हुए लक्ष्मी लाल चौधरी के मकान तक वहा से रोड क्रोस कर पूर्व में भांकर नाई के मकान को शामिल करते हुए किशन सिंह जी चौहान के मकान को लेते हुए गली के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए पारश जी भणावत के मकान को लेते हुए दिशा पूर्व में चलकर रतन जी धिंग के मकान को लेते हुए दिशा उत्तर में चलकर शान्ति चन्द्र जी बाबेल के मकान को शामिल करते हुए जगदीश सिंह जी भण्डारी शिव नारायण जी सोनी वहा से गली के दाये बाये भाग को शामिल करते हुए जगदीश ढोली को लेते हुए बंशी लाल जी सोनी ,छगन लाल जी चौधरी के मकान को लेते हुए राजपुतो के मन्दिर की दुकानो को शामिल करते हुए शिव गंज बाजार लाल जी भाई की दुकान तक वहा से रोड क्रोस कर पश्चिम में कुम्हारो के मौहल्ले को शामिल करते हुए छगन जी छीपा की दुकान तक वहा से चौधरीयों के नोहरे को लेते हुए पुनः देवी लाल की दुकान का बिच का क्षेत्र ।</p> |
| <p>वार्ड संख्या 8.</p> | <p>रायन वाले कुए से प्रारम्भ होकर दिशा दक्षिण में चलकर उदयपुर धरियावद रोड के पूर्वी भाग को शामिल करते हुए लक्ष्मी लाल जी सुथार के मकान को लेते हुए शिव लाल पुरोहित उंकारदास इन्द्रप्रस्थ कालोनी के दाये बाये भाग को शामिल करते हुए लक्ष्मी कान्त जी भार्मा के मकान को लेते हुए रोड क्रोस कर शान्ति लाल नरेश शम्भू प्रसाद जी जोशी के नये मकान तक वहा से दिशा पूर्व में ब्रहमपुरी पुरुशोत्तम जी के मकान को और गली के दाये बाये भाग को शामिल को शामिल करते हुए अश्वीन व्यास के मकान को शामिल करते हुए भोईयो की गली के दाये-बाये भाग को शामिल करते हुए विजय सिंह मोरवनिया के मकान को लेते हुए ब्रहमपुरी ,भंवर जी नन्दावत के मकान तक वहा से दिशा उत्तर में चलकर मणिशंकर जी ,रघुनाथ जी के मकान को लेते हुए प्रताप बावड़ी चौक तक वहा से रोड क्रोस कर मोहन जी कुम्हार के मकान को लेते हुए सदाशिव धर्मनारायण शर्मा को लेते हुए किशन लाल छिपा के मकान को लेते हुए गुलाब सिंह के मकान तक वहा से आगे चलकर सुलभ शोचालय ताज मोहम्मद के मकान तक वहा से दिशा दक्षिण में चलकर लौहारो के मकान को शामिल करते हुए पुन रायन वाले कुए का बिच का क्षेत्र</p> |
| <p>वार्ड संख्या 9.</p> | <p>श्री जगन्नाथ सिंह राठौड के मकान से प्रारम्भ होकर दिशा पश्चिम में चलकर देवी सिंह चौहान को शामिल करते हुए ब्रहमपुरी दिशा दक्षिण में चलकर गिरजा शंकर व्यास हीरा लाल जी व्यास शम्भू प्रसाद जी जोशी नटवर पेन्टर के मकान को लेते हुए दिशा पूर्व में चलकर बंशी लाल पुरोहित के मकान को लेते हुए छगन लाल जी सोनी ,नाथु लाल जी जारोली को शामिल करते हुए जीवन जी जारोली ,शिव शंकर जी के मकान को लेते हुए पारसमल मेहता के मकान को शामिल करते हुए रावला घाटी बडे मन्दिर को शामिल करते हुए हीरा लाल जी जारोली की दुकान को शामिल करते हुए बालू लाल कन्टालिया के मकान को शामिल करते हुए शान्ति कटालिया के मकान तक वहा से दिशा पश्चिम में मानमल कटालिया के मकान को लेते हुए सुन्दर जी भानावत के मकान को शामिल करते हुए गली के दाये बाये भाग लेते हुए शान्ति लाल धीग सुन्दर जी धीग पारस जी धीग के मकान को शामिल करते हुए शान्ति लाल जी भानावत के मकान को शामिल करते हुए , प्रभू लाल छीपा, मोहन लाल नाई के मकान को लेते हुए मुकेश चौधरी के मकान तक वहा से दिशा दक्षिण में चलकर वहा से गाछों की घाटी को लेते हुए नानालाल पितलिया के मकान को लेते हुए ,मोगरा जी के मकान तक वहा से रोड क्रोस कर जगनाथ सिंह के मकान का बीच का क्षेत्र ।</p> |

| | |
|---------------------|---|
| वार्ड संख्या 10. | ब्राम्हणों के मन्दिर से दिशा पश्चिम में चल कर दायी और के मकानों दुकानों गलीयों को लेते हुये ब्राम्हणों के नोहरे तक वहा से उदयपुर धरियावद रोड केशव लाल के मकान को लेते हुये दिशा दक्षिण में चल कर कालु दास के मकान किशन दास के मकान को लेते हुये नरेन्द्र पुरोहित की दुकानों तक वहा से उत्तर में चल कर मंशा लाल के मकान को लेते हुये रोड क्रोस कर महादेव मन्दिर को लेते हुये देव भवन तक वहा से उत्तर में चल कर बायी और के मकानों को लेते हुये बंशी लाल व्यास के मकान तक वहा से ब्राम्हणों की गली के दाये बाये भाग को शामिल करते हुये पुनः ब्राम्हणों के मन्दिर के बीच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 11. | रावले के मुख्य द्वार से प्रारम्भ होकर दिशा पश्चिम में चल कर उ.मा.वि. को लेते हुये दिशा पश्चिम में चल कर लक्ष्मीलाल मेहता के मकान को लेते हुये जारोलीयों के पोर के सामने गली में चल कर बायी और के भाग को लेते हुये हिरा लाल कुदाल के मकान को लेते हुये बाबेलो के पोर के सामने रोड पुर्व में मुड कर राजावत के मकानों को लेते हुये धींगो की घाटी को लेते हुये काठो की गली गिरधारी सिंह के मकान तक वहा से पुर्व में चल कर अकब्बर खा के मकान को लेते हुये दिशा उत्तर में चल कर मानमल मेहता के मकान तक वहा से आगे चल कर मथुरा लाल जोशी के मकान को लेते हुये गणेश घाटी के बायी और मकान दुकान गलीयों को शामिल करते हुये श्रीमालीयों की गली को लेते हुये गाधी चौक सुन्दर लाल धींग की दुकान तक वहा से दिशा दक्षिण में चल कर गोपाल मन्दिर रावले के मुख्य द्वार के बीच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 12. | बाबेलों का चौक इन्दरमल स्वर्णकार के मकान से प्रारम्भ होकर पुर्व में चल कर गली में चौथमल गधीया के मकान को लेते हुये देवी लाल भाणावत के मकान तक वहा से धिगों की घाटी के दाये भाग को शामिल करते हुये नाथु लाल गोबरचन्द तेली के मकान तक वहा से दक्षिण में चल कर भैरू लाल महात्मा के मकान को शामिल करते हुये माणा भोई के मकान तक वहा से पश्चिम में चल कर गम्भा जी मेघवाल के मकान को भामिल करते हुये पिछे गलीयों को भामिल करते हुये हस राज मेघवाल के मकान तक वहा से मेघवालों के मन्दिर के दाये बाये भाग को भामिल करते हुये पुर्व की और उदयपुर धरियावद रोड तक वहा से पश्चिम में चल कर बंशी लाल कुम्हार हिरो भौरूम कन्ना मेघवाल तक वहा से उत्तर में चल कर दायी और के भाग को भामिल करते हुये देव दत्त व्यास के मकान को लेते हुये कान्ति लाल चक्की वाले की दुकान तक वहा से पुर्व में चल कर बाबेलो की पोर को भामिल करते हुये पुनः इन्दरमल स्वर्णकार के मकान का बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 13. | श्री भवर लाल अग्रवाल के मकान से प्रारम्भ होकर दिशा दक्षिण में चल कर बायी और के मकान दुकान गलीयों को लेते हुये सुन्दर लाल रातडिया के मकान सुभाश राका के मकान को लेते हुये रतन लाल अलावत की दुकान तक वहा से रोड क्रोस कर सामने रतन लाल जी शर्मा के मकान को लेते हुये गली कार्नर कालु लाल जी महात्मा के मकान को लेते हुये उकार भोई के मकान को लेते हुये पी डब्लयु डी रोड तक वहा से दिशा पुर्व में चल कर बायी और के भाग को लेते हुये गागु तेली को लेते हुये जितमल लौहार के मकान तक वहा से दिगविजय सिंह जी के बाग के पुर्वी दिवार के सहारे नगरपालिका के शौचालय तक वहा से पश्चिम में मुड कर चतुर माध्यमिक विद्यालय के दाये बाये भाग को शामिल करते हुये पुनः भवर लाल अग्रवाल के मकान के बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 14. | माधव वाटिका से प्रारम्भ होकर लवारसीया शमशान रास्ते गोपाल पुरोहित के मकान को लेते हुये दावतो के फला को शामिल करते हुये नगरपालिका राजस्व सिमा के सहारे सहारे गोडा खेडा सिमा तक वहा से उत्तर में चल कर गायरीयों की महुडी को भामिल करते हुये राजस्व सिमा को लेते हुये उदयपुर निमच रोड क्रोस कर केसरपुरा को लेते हुये मोग्यो की ढाणी को भामिल करते हुये पुनः पश्चिम में चल कर नगरपालिका राजस्व सिमा के सहारे सहारे जो पीला तालाब की पुर्वी सिमा के सहारे सहारे चल कर हनुमान |

| | |
|---------------------|--|
| | मन्दिर को शामिल करते हुये सुरजपोल विद्यालय तक वहा से रोड क्रोस कर उदयपुर धरियावद रोड भगवती लाल पुरोहित व सुरजपोल के बाहरी क्षेत्र को शामिल करते हुये पुनः माधव वाटिका के बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 15. | श्री रेगरो के मन्दिर से प्रारम्भ होकर दिशा दक्षिण में चलकर मन्दिर के पास माता जी की गली के दाये बाये भाग को लेते हुए श्री मंसुर फकीर के मकान तक, वहा से दक्षिण में चलकर श्री रतन सिंह राव, भांकर लाल सोनी के मकानों को शामिल करते हुए रास्ता क्रोस कर सुथारों का मन्दिर, पोखरो का मन्दिर एवं गोपाल दास, तुलसीदास के मकानों को लेते हुए रास्ता क्रोस कर श्री कालु लाल टिम्बरुआ के मकान तक वहा से तालाब पर जाने के रास्ते के दाये बाये भाग को लेते हुए श्री खेमराज सुथार के मान को लेते हुए दिशा दक्षिण में दिगम्बर जैन मन्दिर को लेते हुए श्री मांगी लाल कामरिया के मकान तक वहा से दिशा पूर्व में चलकर लक्ष्मीनारायण सुथार की फैक्ट्री को लेते हुए श्री डालचन्द सुथार के मकान तक वहा से उत्तर में मुडकर जनानी बाडें को लेते हुए तालाब के सहारे सहारे चलकर लक्षकार के मकानों को शामिल करते हुए श्री सुख लाल रेगर के मकान तक वहा से दिशा उत्तर में चलकर रेगरो की बड़ी गली के दाये बाये भाग को शामिल करते हुए तालाब के किनारे किनारे जलदाय के कुए तक वहा से दिशा दक्षिण में चलकर बायी ओर की कृशि भूमि ,मकानों को शामिल करते हुए रेगरो के दरवाजे तक वहा से रेगरो की गली के दाये बाये भाग को शामिल करते हुए भगवान लाल रेगर के मकान तक वहा से दिशा दक्षिण में चलकर नन्द लाल रेगर के मकान को शामिल करते हुए पुन रेगरो के मन्दिर का बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 16. | श्री शिवनारायण सोनी की दुकान से प्रारम्भ होकर दिशा दक्षिण में चलकर बायी ओर के मकानो , दुकानो , गलियों को शामिल करते हुए गांधी चौक में श्री इन्दरमल स्वर्णकार की दुकान तक वहा से दिशा पूर्व में चलकर बायी ओर के मकानो ,दुकानो को शामिल करते हुए मांगी लाल पोखरणा की दुकान तक वहा से तांगा गली के दाये बाये भाग को लेते हुए उदयलाल सोनी की दुकान तक वहा से पूर्व में मुडकर अम्बालाल स्वर्णकार की दुकान को लेते हुए गणे ाघाटी के दाये भाग को शामिल करते हुए राजपुतो के नोहरे तक वहा से दिशा उत्तर में मुडकर श्री पूरणदास, भगवान दास जगदीप सिंह राव के मकान मज्जिद को शामिल करते हुए श्री तेजसिंह राव की दुकान तक वहा से दिशा उत्तर गली में (नायब तहसील) वाली गली के बाये भाग को शामिल करते हुए चुन्नीलाल मेघवाल के मकान तक वहा से दिशा पश्चिम में खटीको की गली बाये भाग को शामिल करते हुए भैरु लाल सालवी की दुकान तक वहा से रास्ता क्रोस कर भैरु लाल चौधरी के मकान से दिशा पश्चिम में चलकर बायी ओर के भाग को शामिल करते हुए पुनः शिवनारायण सोनी के दुकान के बीच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 17. | श्री शान्ती लाल भाणावत की दुकान से प्रारम्भ होकर दिशा दक्षिण में चल कर बायी और भाग के मकानों को शीतला माता कुण्ड की गलीयों को शामिल करते हुये भागचन्द की दुकान को शामिल कर वहा से दिशा उत्तर में चल कर गली में चल कर बायी और के भाग को शामिल करते हुये गणेश खटीक के मकान तक वहा से रास्ता क्रोस कर उप तहसील वाली गली के बायी और के भाग को शामिल करते हुये दिशा उत्तर में चल कर श्री सुर्यवीर सिंह राव के प्लाट तक वहा से दिशा पुर्व में चल कर बायी और के भाग को शामिल करते हुये मांगी लाल रेगर के मकान को शामिल करते हुये दिशा उत्तर में चल कर कृशि भुमि को शामिल करते हुये केसर कुई सोनेरी माता मन्दिर को लेते हुये दिशा पश्चिम में चल कर राजपुरा रोड के बायी और के मकानो गोरी शंकर के मकान को लेते हुए कृशि भुमी को शामिल करते हुये दाउद जी चक्की वाले के मकान को लेते हुये ताहेर अली के मकान तक वहा से दिशा दक्षिण में चल कर बायी और के मकानों को शामिल करते हुये गांधी आश्रम को लेते हुये सुखलाल खटीक के मकान तक वहा से रास्ता क्रोस कर दिशा पश्चिम में चल कर बोहरा के जमात खाने को लेते हुये बायी और के मकानों को शामिल करते हुये दिशा पश्चिम में चल कर पुनः शान्ति लाल भाणावत की |

| | |
|---------------------|--|
| | दुकान के बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 18. | भवर लाल तम्बोली के मकान से प्रारम्भ होकर दिशा दक्षिण में चल कर श्री रूप लाल जी जैन की दुकान तक वहा से रोड क्रॉस कर पन्ना लाल जीन्नगर की दुकान को लेते हुये अग्रवाल के मकान को लेते हुये दिशा दक्षिण में चल कर श्री करण सिंह कोठारी के मकान तक को लेते हुये अन्दर वाह दरवाजे तक वहा से आगे चल कर बसन्ती लाल छीपा की दुकान तक वहा से पुर्व में मुड कर गलीयों मकानों को लेते हुये बोहरा मस्जिद तक वहा से उत्तर में चल कर बायी और के भाग को शामिल करते हुये अल्लानुर के मकान तक वहा से रोड क्रॉस कर मुस्ताक खा के मकान को लेते हुये मिट्टु लाल धोबी के मकान को लेते हुये कोर्नर पर गोविन्द लाल खटीक के मकान तक वहा से सरदार खान के मकान के पास की गलीयों व दुकानो को लेते हुये पुनः भवर लाल तम्बोली के मकान का बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 19. | स्व. धूल चन्द गाछा के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर में चलकर स्व. घीसू लाल धोबी व गरीब खा वहा से कमल काकरं रोड के पूर्व भाग को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा कमल तालाब के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे लेते हुये सहकारी समिती भवन तक वहा से उदयपुर निमच रोड के सहारे सहारे उत्तर में चल कर तहसील कार्यालय वन्य विभाग को लेते हुये आगे चल कर आजाद खा गैस गोदाम वर्धमान सेवा सस्थान तक वहा से नगरपालिका के राजस्व सीमा के सहारे सहारे लेते राजपुरा रोड के सहारे पुर्व में कमल तालाब को लेते हुये राजपुरा के पास तक वहा से कमल तालाब की पाल को शामिल करते हुये मामा देव तक वहा से पश्चिम में चल कर नाथो के मन्दिर को लेते हुये उदय लाल सालवी के मकान वहा से सालवीयों के मन्दिर के पास चौराहा से रोड क्रॉस कर मुनिर खा के मकान को लेते हुये रामचन्द्र खटीक मुस्ताक खा के मकान तक वहा से रोड क्रॉस कर भागचन्द खटीक के मकान को लेते हुये कालु लाल कुम्हार व कुम्हारो का मोहल्ला को लेते हुये प्यार चन्द भाट के घर तक वहा से पुनः धुलचन्द गाछा के मकान का बिच का क्षेत्र। |
| वार्ड संख्या 20. | नगर पालिका कार्यालय से प्रारम्भ होकर पूर्व में चलकर काजी के मकान भांकर सिंह के मकान को शामिल करते हुए कमल काकरं तक वहा से कमल तालाब की सीमा के सहारे चलकर नगर पालिका राजस्व सीमा के सहारे गैस गोदाम तक वहा से उत्तर में चलकर आजाद खों के मकान को लेते हुए रोड-रोड तहसिल कार्यालय तक वहा से रोड-रोड सहकारीय भवन तक वहा से रोड क्रॉस कर होमाखारी रोड पशु चिकित्सालय लेते हुये आगे गब्बा जी की भागल के रास्ते चल कर गब्बा जी की भागल को लेते हुये नई बावडी को शामिल करते हुये नगरपालिका राजस्व सीमा के सहारे सहारे जय जवान जय किसान पेट्रोलियम तक वहा से दिशा दक्षिण में चल कर उदयपुर धरियावद रोड के पश्चिमी भाग को लेते हुये हनुमान मन्दिर तक वहा से कब्रिस्तान को लेते हुये रोड क्रॉस कर दोलत राम हरिजन के मकान को लेते हुये माणक चन्द जी सुथार के मकान तक वहा से आगे चल कर रोड के पुर्वी भाग को लेते हुये भारत मेडिकल स्टोर तक वहा से आगे चल कर ख्यालि लाल बाबेल महावीर कॉलोनी को शामिल करते हुये टाकिज तक वहा से नगरपालिका के बीच का क्षेत्र। |

अधिसाषी अधिकारी
नगरपालिका कानोड

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।